

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23—अगस्त 29, 2014 (भाद्रपद 1, 1936)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23—AUGUST 29, 2014 (BHADRA 1, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जुलाई 2014

सं. डीपी/पर्स-I/2014/0079/3/14/2009—श्री एस. जावीद अहमद, भा.पु.सेवा (उत्तरप्रदेश : 1984), संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली की सेवाएं केन्द्र में उनके कार्यकाल पूरा होने के फलस्वरूप प्रत्यावर्तन पर दिनांक 17.06.2014 के अपराहन से उत्तरप्रदेश सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

मनीष

उप निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 4 अगस्त 2014

सं. डीपी/पर्स-I/2014/0080/3/103/2011—श्री रविन्दर सिंह ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 30.06.2014 के अपराहन से पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

मनीष

उप निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय
(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली -3, दिनांक 4 अगस्त 2014

सं. ए-17011/40(के-28)/2013-प्रशा.-I—इस निदेशालय की श्रीमति कांता कुमारी, प्रधान निजी सचिव, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31-07-2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

वेणु कुमार के. एम.
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई - 400 001, दिनांक 14 जुलाई 2014

सं. 6(1060)/97-प्रशा./ 8981----राष्ट्रपति, बीएआरसी, मुम्बई के प्रशासनिक अधिकारी-III (पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) श्री एस. श्रीराम को दिनांक 30 जून 2014 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में अवर सचिव (पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. वी. एस. वी. प्रसाद
अवर सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली -110 003, दिनांक 31 जुलाई 2014

सं. ए-32013/05/2013-स्था. II---- श्री सुनील कुमार, उपनिदेशक (विनियम एवं सूचना) की प्रोन्नति निदेशक (विनियम एवं सूचना) के पद पर होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में 17 जुलाई, 2014 से वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. तथा ग्रेड वेतन 8700/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर निदेशक (विनियम एवं सूचना) के रूप में नियुक्त करते हैं।

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

नई दिल्ली - 110003, दिनांक 22 जनवरी 2014

सं. ए- 39012/01/2013-स्था-II----राष्ट्रपति जी, महानिदेशक नागर विमानन में कार्यरत श्री हेमराज मीणा, विमान सुरक्षा अधिकारी के 31 जनवरी 2014 (अपराह्न) में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने संबंधी सूचना को केंद्रीय सिविल सेवा (टी एस) नियम, 1965 के नियम 5 (1)(क) के तहत स्वीकार करते हैं। अतः श्री हेमराज मीणा, विमान सुरक्षा अधिकारी को 31 जनवरी 2014 को अपराह्न में महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में उनके कर्तव्यों से कार्यमुक्त किया जाता है।

बी. के. श्रीवास्तव
उपनिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 14 फरवरी 2014

सं ए- 39012/02/2014-स्था. II---- राष्ट्रपति, श्री संदीप सुरेश पाटिल, विमान सुरक्षा अधिकारी कार्यालय नागर विमानन महानिदेशालय के दिनांक 07 फरवरी 2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से त्यागपत्र संबंधित नोटिस को केंद्रीय सिविल सेवा (टी एस) नियम, 1965 के नियम-5 (1)(क) के तहत स्वीकार करते हैं। अतः श्री संदीप सुरेश पाटिल, विमान सुरक्षा अधिकारी को दिनांक 07 फरवरी, 2014 के अपराह्न से महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय से उनके कर्तव्यों से भार-मुक्त किया जाता है।

बी. के. श्रीवास्तव
उपनिदेशक (प्रशासन)

कम्पनी कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार
कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

सं०: 560(3)/2214—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) माह जुलाई के अन्तर्गत तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन संख्या	एस आर एन संख्या
1	हरषिता कमोडिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2011PTC043844	C03056645
2	स्वास्तिक शेयर एण्ड स्टॉक डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2005PTC029413	C06944771
3	नवनिर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U19115UP2007PTC034306	C08051963
4	स्वरूप रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U17210UP2009PTC037251	C08052631
5	भंडारी इन्फ्राप्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC046001	C08316200
6	रोहिणी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC047617	C08346793
7	ए डी बी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1991PTC013415	C08386385
8	आकांक्षा इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2012PTC050814	C09244500
9	गेट फार इटालियन बिजनेस कन्सल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2007PTC033068	C09285834
10	तंत्र इन्फ्रानेशल प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC045336	C09322843
11	दून वैली रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U15311UP1980PTC005031	C09632944
12	प्रताप टेलीकाम मार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51101UP2009PTC037095	C09703422
13	वीनस ओवरलैंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP1990PTC011811	C09998444
14	वेलडन कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033277	C10508042
15	लक्ष्मी पालीटेक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1982PTC005542	C10818268
16	बीबी टेक हर्बल लिमिटेड	U24233UP2004PLC028383	C11016698
17	एकिन टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC043412	C11305265
18	रिंद लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड	U65910UP1990PLC012537	C12424388

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
कानपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014

सं० 560(5)/2254—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रम सं०	कंपनी का नाम	सिन संख्या
1	लक्ष्य अवसर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2003PTC028077

क्रम सं०	कंपनी का नाम	सिन संख्या
2	एस कुमार वीजन इण्डिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028071
3	वीगोरस इश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U66010UP2003PTC028074
4	स्काईलैब मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2003PTC028057
5	आइडियल कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U22121UP2003PTC028046
6	व्याज शोस एण्ड प्रमोशनस प्राइवेट लिमिटेड	U92141UP2003PTC028048
7	एकुरेट काल्स प्राइवेट लिमिटेड	U80902UP2003PTC028042
8	जैसवाल बुल्डकान कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2003PTC028037
9	जनकी डेवलपर्स एण्ड कान्सट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड	U45203UP2003PTC028040
10	एलियांस डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2003PTC028041
11	प्रंचवटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028034
12	सेहजास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80101UP2003PTC028031
13	मिनस प्लस जीरो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U62190UP2003PTC028016
14	ए वी आर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U80903UP2003PTC028017
15	शूज अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड	U19202UP2003PTC028019
16	रेड रोज गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U18101UP2003PTC028020
17	हैवेनवे सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028006
18	एडवांस मार्केट रिसर्च एण्ड सोशल इन्फार्मेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74130UP2003PTC027996
19	विन्ध्यवासिनी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2003PTC027860
20	एडवीजन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC027981
21	एसजीवी मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2003PTC027983
22	सैमड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2003PTC027978
23	बोनाफाइड नेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U52334UP2003PTC027973
24	मंगलम ट्रेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U50101UP2003PTC027972
25	ओमगुरु आयल्स प्राइवेट लिमिटेड	U15142UP2003PTC027968
26	जी आई फारेन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2003PTC027969
27	के एस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2003PTC027961
28	एकेमसेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2003PTC027964
29	गोल्डेनफ्यूचर सेल्स एण्ड मार्केटिंग कान्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2003PTC027952
30	बनेधिया प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड	U22122UP2003PTC027953
31	लीडिंग इंडिया सेल्स एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2003PTC027955
32	ट्रूफूड्स मार्केटिंग कान्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2003PTC027959
33	नेटवे इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2003PTC027960
34	रेस्टोरा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U17226UP2003PTC027945

क्रम सं०	कंपनी का नाम	सिन संख्या
35	गोल्डेन स्काई मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC027948
36	लाइफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2003PTC027943
37	टाइमबेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC027913
38	थिक इन्फोसेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2003PTC027919
39	लोटस मेडिकल डिवाइसेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP2003PTC027906
40	एच आर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2003PTC027901
41	हेल्थलाइन फार्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2003PTC027897
42	नरेश पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड	U50500UP2003PTC027865
43	महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान प्राइवेट लिमिटेड	U80302UP2003PTC027849
44	एस के रियलस्टेट प्रमोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70109UP2003PTC027853
45	हेलोस इन्फोसेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2003PTC027833
46	एवन बिजनेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2003PTC027811
47	एएआई इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2003PTC027810
48	रिलायबल इंश्योरेंस केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U66010UP2003PTC027792
49	ब्राइट फ्यूचर सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC027791

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 31 जुलाई 2014

सं. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2000 —कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधित्त हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है:—

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	33187	जीएसपी इंटीग्रेटिंग टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
2	20576	ओमेगा डीवैलपरस प्राइवेट लिमिटेड
3	32210	मनराज मरचेंडाईस प्राइवेट लिमिटेड
4	31861	जैस संचार प्राइवेट लिमिटेड
5	32256	नवरतन कनसलटैंसी प्राइवेट लिमिटेड
6	37344	एई इनफ्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
7	32712	सैप्स लाईफ सांडिसिस प्राइवेट लिमिटेड
8	36948	एरे अमृतसर ओवरसिस टैसटिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
9	29198	आर आर जी लैंड डिवैलपरस एंड बिल्डरस प्राइवेट लिमिटेड
10.	34056	फालकोनआई गोल्फ प्राइवेट लिमिटेड
11.	37384	ओजीएल एनरजी प्राइवेट लिमिटेड
12.	35027	डीटूसी सक्थोरिटी एंड एच आर सोल्यूशन कन्सलटैंसी प्राइवेट लिमिटेड
13	33852	चैमबर टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड
14	29223	होम इटैली फ़नीचर प्राइवेट लिमिटेड
15	33397	गोबिंदगढ़ स्टील डिवैलपमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
16	37066	गोल्डफार्म न्यूट्रीशियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17	34360	स्टार रिसोर्सिस् प्राइवेट लिमिटेड
18	05800	नाहर वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
19	21744	सोलर इनोवेशनस प्राइवेट लिमिटेड
20	37395	ओसवाल ग्रीन एनरजी प्राइवेट लिमिटेड
21	33464	शेख फरीद परमोटरस एंड बिल्डरस प्राइवेट लिमिटेड
22	34396	एस.के. थैंडस लिमिटेड
23	37272	कैरि यूआर स्टाईल प्राइवेट लिमिटेड
24	32138	अमृत टाउनविला प्राइवेट लिमिटेड
25	28750	बीपीएम इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
26	31092	बजाज न्यूट्रा डायरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड
27	30909	डीएमडब्ल्यू टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड

डा० राज सिंह
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

कोलकाता, दिनांक 6 अगस्त, 2014

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

सं. क.र./प०.बं०./एफटीई/560/2014---- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 21 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्र. स.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U51109WB2008PTC126203	तिरुमला ट्रेडिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U51909WB2008PTC126209	स्विफ्ट सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U74999WB2010PTC155880	हरबानुट्रि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

क्र. स.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
4	U63030WB2007PTC116142	ईस्टवेस्ट कोस्टलाइंस प्राइवेट लिमिटेड
5	U63090WB2007PTC116025	ओमेगा रोडवेज़ प्राइवेट लिमिटेड
6	U60230WB2008PTC127267	प्रिस्म रोड कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U51909WB2011PTC171022	अमरलक्ष्मी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
8	U92132WB2004PTC099523	बैनर्जी मीडिया इन्टरटेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड
9	U31401WB2012PTC189394	जेफेंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10	U01403WB2012PLC180769	फ्युचर शार्इन एगो प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
11	U51909WB2013PTC196724	लिकरोज़ कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
12	U01111WB2006PTC110272	फरधान एगो प्राइवेट लिमिटेड
13	U01409WB2006PTC110226	फतेहपुर एगो प्राइवेट लिमिटेड
14	U01400WB2006PTC110238	इटवा एगो प्राइवेट लिमिटेड
15	U24233WB2013PTC191730	बेदाना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
16	U01400WB2006PTC110012	रौजागाँव एगो प्राइवेट लिमिटेड
17	U45400WB2008PTC122596	अपर्ना रेसीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड
18	U45400WB2008PTC122603	अपर्ना कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U51909WB2012PTC183269	मुरारीलाल रमेश कुमार एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
20	U45400WB2008PTC122605	अपर्ना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U28939WB2011PTC164489	अनंत एल्लोयज़ प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. पामग्रोव रेसिडेंसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पणजी-403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 4404/1122—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. पामग्रोव रेसिडेंसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. टीटोस् ग्रे सैल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पणजी-403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 6309/1125—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. टीटोस् ग्रे सैल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. फेडोर इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी— 403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 6246/1129—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. फेडोर इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. लूना होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी— 403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 6148/1131—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. लूना होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. हेलीन मेरिटाईम रिकुटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी— 403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 5938/1134—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. हेलीन मेरिटाईम रिकुटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. बोका रेस्टोरेन्ट्स एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी— 403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 5392/1137—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. बोका रेस्टोरेन्ट्स एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. मोहोनसन्स कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी— 403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 986/1140—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. मोहोनसन्स कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. ट्रेवलपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी— 403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 3310/1143—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. ट्रेवलपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. प्रीतिदाना होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी— 403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 3943/1146—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. प्रीतिदाना होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. नैचुरल फार्मुलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी— 403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 5165/1149—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. नैचुरल फार्मुलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. विकसाराह गेस्ट हाउस अकॉमोडेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी— 403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 4496/1152—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. विकसाराह गेस्ट हाउस अकॉमोडेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. ग्रीन वेक्स रिजार्टस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी— 403001, दिनांक 5 अगस्त 2014

सं. 5344/1155—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. ग्रीन वेक्स रिजार्टस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनीयों के विषय में

कटक—753014, दिनांक 4 अगस्त 2014

सं. आर.ओ.सि.560(5)/2014/2082—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं:—

क्र.सं.	पं.सं.	कम्पनीकानाम
01	15-04727	मेसर्स नीयुलाइफ़ क्रीएसन्स प्राइवेट लिमिटेड
02	15-09957	मेसर्स नेयन् लजीष्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड
03	15-09963	मेसर्स लीअन् सेन्टिनाल् प्राइवेट लिमिटेड
04	15-09971	मेसर्स पेस्नीआ टुर् एनड ट्रामेल्स प्राइवेट लिमिटेड
05	15-09972	मेसर्स देबान् मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
06	15-09978	मेसर्स साई सीने वाल्ड प्राइवेट लिमिटेड
07	15-09980	मेसर्स ओम् मा इन्फोटेक् प्राइवेट लिमिटेड
08	15-09983	मेसर्स मानस् सीद्धी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
09	15-09984	मेसर्स आर्थ इष्ट इन्फ्राटेक् प्राइवेट लिमिटेड
10	15-09987	मेसर्स डाकेस्वरी इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राइवेट लिमिटेड
11	15-09992	मेसर्स अन्नडा एस्टेट एनड डेभलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	15-09996	मेसर्स ओरिशा आइस् फाक्ट्री एनड कोल्डस्टोर् प्राइवेट लिमिटेड
13	15-14201	मेसर्स साभीयोर् लिजेन्ड इन्डस्ट्रीज् लिमिटेड
14	15-14202	मेसर्स सागर् मेडिआ एनड एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
15	15-14207	मेसर्स एस् पी एस् लेक्सोल्युसन्स प्राइवेट लिमिटेड
16	15-14212	मेसर्स स्पार्कल्माइन्डस् टेक्नोलोजीज् प्राइवेट लिमिटेड
17	15-14218	मेसर्स क्यालीटाट् सप्टव्यार् प्राइवेट लिमिटेड
18	15-14219	मेसर्स प्रेम्साई एक्सपोर्टस् (इन्डिआ) प्राइवेट लिमिटेड
19	15-14222	मेसर्स बैभब् हाबिटाट्स् प्राइवेट लिमिटेड
20	15-14225	मेसर्स ए ओ एस् इन्जिनीयरीन् एनड कन्सलटान्सी प्राइवेट लिमिटेड
21	15-14227	मेसर्स साबीत्री रीअल् कनस्ट्रक्शन् प्राइवेट लिमिटेड
22	15-14240	मेसर्स आफ्ती प्रोडक्शन् प्राइवेट लिमिटेड
23	15-14242	मेसर्स एस् एस् पी इन्फ्रा प्रोजेक्ट् प्राइवेट लिमिटेड
24	15-14244	मेसर्स राइट् वे ल्यान्ड डेभलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
25	15-14245	मेसर्स आदीत्य देम् इन्फ्राटेक् प्राइवेट लिमिटेड
26	15-16085	मेसर्स काप्रीकन् टेक्नोलोजीज् प्राइवेट लिमिटेड

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आड़िशा

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 5th August 2014

No. F.20/2014/SCA(1)--Shri Susmit Ghosh, Deputy Registrar has retired voluntarily from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the forenoon of 5.8.2014 on his attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Dy. Registrar (Admn.I)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 30th July 2014

No. DP/Pers.I/2014/0079/3/14/2009--Services of Shri S. Javed Ahmad, IPS (UP:1984), Joint Director, CBI, New Delhi have been placed back at the disposal of Government of Uttar Pradesh with effect from the afternoon of 17.06.2014 on completion of his approved tenure at centre.

MANISH
Dy. Director (Admn.)

The 4th August 2014

No. DP/Pers.I/2014/0080/3/103/2011—Shri Ravinder Singh has relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.06.2014 on attaining the age of retirement on superannuation.

MANISH
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE OF COORDINATION
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 4th August 2014

No. A-17011/40(K-28)/2013-Admn.I--Smt. Kanta Kumari, Principal Private Secretary of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31-07-2014.

VENUKUMAR K.M.
Jt. Director (Admn.)
& Head of the Office

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 14th July 2014

No.6 (1060)/87-Adm/8981--The President is pleased to appoint Shri S. Sriram, Administrative Officer—III (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/-), BARC, Mumbai, as Under Secretary (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/-), in DAE Mumbai with effect from the forenoon of June 30, 2014.

N.V.S.V. PRASAD
Under Secy.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi – 110 003, the 31st July 2014

No. A-32013/05/2013-E.II Consequent upon his promotion to the post of Director (Regulation and Information), the President is pleased to appoint Sh. Sunil Kumar, Deputy Director (Regulation and Information) as Director (Regulation and Information) on regular basis in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Office of the Director General of Civil Aviation with effect from 17th July, 2014.

GOPAL SINGH
Dy. Director of Admn.

New Delhi – 110 003, the 22nd January 2014

No. A-39012/01/2013-E.II.—The President is pleased to accept the notice under Rule 5(1)(a) of the Central Civil Service (TS) Rules, 1965 of Shri Hemraj Meena, Air Safety Officer in the Office of the Director General of Civil Aviation regarding resignation from Government service with effect from 31-01-2014 (after-noon). Therefore, Shri Hemraj Meena, Air Safety Officer in the Office of the Director General of Civil Aviation stands relieved of his duties with effect from the afternoon of 31st January, 2014.

B. K. SRIVASTAVA
Dy. Director of Admn.

The 14th February 2014

No. A-39012/02/2014-E.II.—The President is pleased to accept the notice under Rule 5(1)(a) of the Central Civil Service (TS) Rules, 1965 of Shri Sandeep Suresh Patil, Air Safety Officer in the Office of the Director General of Civil Aviation regarding resignation from Government service with effect from 07-02-2014 (after-noon). Therefore, Shri Sandeep Suresh Patil, Air Safety Officer in the Office of the Director General of Civil Aviation stands relieved of his duties with effect from the afternoon of 07th February, 2014.

B. K. SRIVASTAVA
Dy. Director of Admn.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act 1956 and of following Companies

Kanpur-208001, the 4th August 2014

No. LC/560(3)/2214--Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved:--

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	HRISHITA COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U74992UP2011PTC043844	C03056645
2	SWASTIK SHARES AND STOCK DEALS PRIVATE LIMITED	U67120UP2005PTC029413	C06944771
3	NAVNIRMAN INFRASTRUCTURES INDIA PRIVATE LIMITED.	U19115UP2007PTC034306	C08051963
4	SWAROOP RETAILS PRIVATE LIMITED	U17210UP2009PTC037251	C08052631
5	BHANDARI INFRAPROMOTOR PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC046001	C08316200
6	ROHINI INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC047617	C08346793
7	A.D.B. DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51109UP1991PTC013415	C08386385
8	AKANSHA INFRA PRIVATE LIMITED	U31908UP2012PTC050814	C09244500
9	GATE FOR ITALIAN BUSINESS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74992UP2007PTC033068	C09285834
10	TANTRA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC045336	C09322843
11	DOON VALLEY ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED	U15311UP1980PTC005031	C09632944
12	PRATAP TELECOM MART PRIVATE LIMITED	U51101UP2009PTC037095	C09703422
13	VENUS OVERLAND TOURS PRIVATE LIMITED	U63040UP1990PTC011811	C09998444

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
14	WELLDONE COLONISERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033277	C10508042
15	LAXMI POLYTEX (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51109UP1982PTC005542	C10818268
16	BB TECH HARBAL LIMITED	U24233UP2004PLC028383	C11016698
17	AKIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC043412	C11305265
18	RIND LEASING AND FINANCE LIMITED	U65910UP1990PLC012537	C12424388

S.P.KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act 1956 and of following Companies

Kanpur-208001, the 6th August 2014

No. LC/560(5)/2254--Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved:--

Sl. No	Company Name	CIN No.
1	LAKSHYA AVASAR MARKETING PRIVATE LIMITED	U51399UP2003PTC028077
2	S.KUMAR'S VISION INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028071
3	VIGOROUSS INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U66010UP2003PTC028074
4	SKY LAB MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED	U51399UP2003PTC028057
5	IDEAL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U22121UP2003PTC028046
6	VOYAGE SHOWS & PROMOTIONS PRIVATE LIMITED	U92141UP2003PTC028048
7	ACCURATE CALL PRIVATE LIMITED	U80902UP2003PTC028042
8	JAISWAL BUILDCON COMPANY PRIVATE LIMITED	U45201UP2003PTC028037
9	JANKI DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45203UP2003PTC028040
10	ALLIANCE DEVELOPERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2003PTC028041
11	PANCHVATI MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028034
12	SEHJAS EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80101UP2003PTC028031
13	MINUS PLUS ZERO EXPORTS PRIVATE LIMITED	U62190UP2003PTC028016
14	AVR SERVICES PRIVATE LIMITED	U80903UP2003PTC028017
15	SHOES UNLIMITED PRIVATE LIMITED	U19202UP2003PTC028019
16	RED ROSE GARMENTS PRIVATE LIMITED	U18101UP2003PTC028020
17	HEAVENWAY SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028006

Sl. No	Company Name	CIN No.
18	ADVANCE MARKET RESEARCH & SOCIAL INFORMATION PRIVATE LIMITED	U74130UP2003PTC027996
19	VINDHYAVASINI SURGICAL PRIVATE LIMITED	U51397UP2003PTC027860
20	ADVISION MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC027981
21	SGV MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51399UP2003PTC027983
22	SAM DRUGS & PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24232UP2003PTC027978
23	BONAFIDE NET SERVICES PRIVATE LIMITED	U52334UP2003PTC027973
24	MANGLAM TRACTORS PRIVATE LIMITED	U50101UP2003PTC027972
25	OMGURU OILS PRIVATE LIMITED	U15142UP2003PTC027968
26	G I FOREIGN TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040UP2003PTC027969
27	K. S. CASTING PRIVATE LIMITED	U27104UP2003PTC027961
28	ACME SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED	U74300UP2003PTC027964
29	GOLDENFUTURE SALES & MARKETING CONCEPT PRIVATE LIMITED	U74300UP2003PTC027952
30	BANODHIA PRAKASHAN PRIVATE LIMITED	U22122UP2003PTC027953
31	LEADING INDIA SALES & SERVICES PRIVATE LIMITED	U51399UP2003PTC027955
32	TRUEFRIENDS MARKETING CONCEPT PRIVATE LIMITED	U74300UP2003PTC027959
33	NETWAY INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED	U74300UP2003PTC027960
34	RESTORA FOAMS PRIVATE LIMITED	U17226UP2003PTC027945
35	GOLDENSKY MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC027948
36	LIFELINE DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51397UP2003PTC027943
37	TIME BASE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC027913
38	THINK INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2003PTC027919
39	LOTUS MEDICAL DEVICES INDIA PRIVATE LIMITED	U85110UP2003PTC027906
40	H.R.HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U45201UP2003PTC027901
41	HEALTHLINE FORMULATIONS PRIVATE LIMITED	U51397UP2003PTC027897
42	NARESH PETROLEUM PRIVATE LIMITED	U50500UP2003PTC027865
43	MAHARAJA AGRASEN SHIKSHAN SANSTHAN PRIVATE LIMITED	U80302UP2003PTC027849
44	S.K.REAL ESTATE PROMOTERS PRIVATE LIMITED	U70109UP2003PTC027853
45	HELIOS INFO-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200UP2003PTC027833
46	AVON BUSINESS SYSTEM PRIVATE LIMITED	U51399UP2003PTC027811
47	AAI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U45201UP2003PTC027810

Sl. No	Company Name	CIN No.
48	RELIABLE INSURANCE CARE SERVICE PRIVATE LIMITED	U66010UP2003PTC027792
49	BRIGHTFUTURE SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC027791

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies
Chandigarh, the 31st July 2014

No. ROC/560(5) FTE/2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:--

S.No.	Company No	Name of the Company
1	33187	GSP Integrating Technologies Private Limited
2.	20576	Omega Developers Private Limited
3.	32210	Manraj Merchandise Private Limited
4.	31861	Jass Sanchar Private Limited
5.	32256	Navrattan Consultancy Private Limited
6.	37344	AE Infra Buildtech Private Limited
7.	32712	Saps Life Sciences Private Limited
8.	36948	Array Amritsar Overseas Testing Centre Private Limited
9.	29198	RRG Land Developers And Builders Private Limited
10.	34056	Falcon I Golf Private Limited
11.	37384	OGI Energy Private Limited
12.	35027	D2C Security And HR Solution Consultancy Private Limited
13.	33852	Chembur Township Private Limited
14.	29223	Home Itally Furniture Private Limited
15.	33397	Gobindgarh Steel Development Centre Limited
16.	37066	Goldfarm Nutritions India Private Limited
17.	34360	Star Resources Private Limited
18.	05800	NaharWoollen Mills Private Limited
19.	21744	Solar Innovations Private Limited
20.	37395	Oswal Green Energy Private Limited
21.	33464	Sheikh Farid Promoters & Builders Private Limited
22.	34396	S.K. Threads Limited
23.	37272	Carry UR Style Private Limited
24.	32138	Amrit Townvilla Private Limited
25.	28750	BPM Impex Private Limited
26.	31092	Bajaj Nutra Dairy Products Limited
27.	30909	DMW Technologies Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following Companies
Kolkata, the 6th August 2014

No.ROC/WB/FTE/560/2014 Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 21 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved:--

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U51109WB2008PTC126203	TIRUMALA TRADELINKS PRIVATE LIMITED
2	U51909WB2008PTC126209	SWIFT SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
3	U74999WB2010PTC155880	HERBANUTRI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
4	U63030WB2007PTC116142	EASTWEST COASTLINES PRIVATE LIMITED
5	U63090WB2007PTC116025	OMEGA ROADWAYS PRIVATE LIMITED
6	U60230WB2008PTC127267	PRISM ROAD CARRIERS PRIVATE LIMITED
7	U51909WB2011PTC171022	AMARLAXMI NIRMAN PRIVATE LIMITED
8	U92132WB2004PTC099523	BANERJEE MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
9	U31401WB2012PTC189394	JEFENG ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED
10	U01403WB2012PLC180769	FUTURE SHINE AGRO PROJECTS INDIA LIMITED
11	U51909WB2013PTC196724	LINKROSE COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
12	U01111WB2006PTC110272	FARDHAN AGRO PRIVATE LIMITED
13	U01409WB2006PTC110226	FATEHPUR AGRO PVT LTD
14	U01400WB2006PTC110238	ITWA AGRO PRIVATE LTD
15	U24233WB2013PTC191730	BEDANA BIOTECH PRIVATE LIMITED
16	U01400WB2006PTC110012	RAUZAGAON AGRO PRIVATE LIMITED
17	U45400WB2008PTC122596	APARNAA RESIDENCY PRIVATE LIMITED
18	U45400WB2008PTC122603	APARNAA COMPLEX PRIVATE LIMITED
19	U51909WB2012PTC183269	MURARILAL RAMESH KUMAR AGENCY PRIVATE LIMITED
20	U45400WB2008PTC122605	APARNAA BUILDERS PRIVATE LIMITED
21	U28939WB2011PTC164489	ANANT ALLOYS PRIVATE LIMITED

D. N. CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s PALMGROVE RESIDENCY COMPANY PRIVATE LIMITED
Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 4404/1122--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of PALMGROVE RESIDENCY COMPANY PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Titos Grey Cell Media Private Limited
Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 6309/1125--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Titos Grey Cell Media Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s FEDOR ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 6246/1129--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of FEDOR ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Luna Hotels and Restaurants Private Limited

Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 6148/1131--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Luna Hotels and Restaurants Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s HELENE MARITIME RECRUITERS PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 5938/1134--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of HELENE MARITIME RECRUITERS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Boka Restaurants and Hotels Private Limited

Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 5392/1137--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Boka Restaurants and Hotels Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s MOHONSONS CHEMICALS PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 986/1140--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of MOHONSONS CHEMICALS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s TRAVELPACK INDIA PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 3310/1143--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of TRAVELPACK INDIA PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s PRITIDANA HOTELS PRIVATE LIMITED
Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 3943/1146--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of PRITIDANA HOTELS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s NATURAL FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 5165/1149--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of NATURAL FORMULATIONS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s VICSARAH GUEST HOUSE ACCOMODATION
PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 4496/1152--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of VICSARAH GUEST HOUSE ACCOMODATION PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s GREEN WAVES RESORTS PRIVATE LIMITED
Panaji-403001, the 5th August 2014

No. 5344/1155--Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of GREEN WAVES RESORTS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following Companies
Cuttack-753014, the 4th August 2014

No. ROC/Sec. 560(5)/2014/2082---Notice is hereby given pursuant to Sub- section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved:---

Sl No.	No. of comp	Name of company
01	15-04727	NEWLIFE CREATIONS PRIVATE LIMITED
02	15-09957	NEON LOGISTICS PRIVATE LIMITED
03	15-09963	LEEON SENTINAL PRIVATE LIMITED
04	15-09971	PESNIA TOUR AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
05	15-09972	DEWAN MULTIPLEX PRIVATE LIMITED
06	15-09978	SAI CINE WORLD PRIVATE LIMITED
07	15-09980	OM MAA INFOTECH PRIVATE LIMITED
08	15-09983	MANAS SIDDHI IMPEX PRIVATE LIMITED

Sl No.	No. of comp	Name of company
09	15-09984	EARTH EAST INFRATECH PRIVATE LIMITED
10	15-09987	DAKESWARI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
11	15-09992	ANNADA ESTATE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
12	15-09996	ORISSA ICE FACTORY & COLDSTORE PRIVATE LIMITED
13	15-14201	SAVIOUR LEGEND INDUSTRIES LIMITED
14	15-14202	SAGAR MEDIA & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
15	15-14207	SPS LEXOLUTIONS PRIVATE LIMITED
16	15-14212	SPARKLEMINDS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
17	15-14218	QUALITAT SOFTWARE PRIVATE LIMITED
18	15-14219	PREMSAI EXPORTS(INDIA) PRIVATE LIMITED
19	15-14222	BAIVAB HABITATS PRIVATE LIMITED
20	15-14225	EOS ENGINEERING & CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
21	15-14227	SABITRI REAL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
22	15-14240	AFFY PRODUCTION PRIVATE LIMITED
23	15-14242	SSP INFRA PROJETS PRIVATE LIMITED
24	15-14244	RIGHT WAY LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
25	15-14245	ADITYA DEV INFRATECH PRIVATE LIMITED
26	15-16085	CAPRIKON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

C.K. DAS
ASST. REGISTRAR OF COMPANIES
ODISHA

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in